

# केमिकल व कास्टिक सोडा से दूध बना दिल्ली व यूपी के कई जिलों में कर रहे थे सप्लाई, मथुरा में पकड़ी गई फैक्ट्री

Publish Date: Sun, 08 Aug 2021 08:49 PM (IST) Author: Umesh Tiwari



उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने रिफाईंड कास्टिक सोडा और केमिकल मिलाकर दूध और उसके उत्पाद बनाकर कारोबार करने वाले गुरोह का भंडाफोड़ किया है। बाकायदा फैक्ट्री में दूध के नकली उत्पादों को बनाया जा रहा था। पुलिस ने सात लोग गिरफ्तार किए गए हैं।

**मथुरा [जागरण संवादाता]**। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने रिफाईंड, कास्टिक सोडा और केमिकल मिलाकर दूध और उसके उत्पाद बनाकर कारोबार करने वाले गुरोह का भंडाफोड़ किया है। बाकायदा फैक्ट्री में दूध के नकली उत्पादों को बनाया जा रहा था। पुलिस ने सात लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सिंथेटिक दूध, पनीर और मक्खन की सप्लाई दिल्ली से लेकर यूपी के फैजाबाद, हाथरास, अलीगढ़ और मथुरा के विभिन्न कस्बों में की जा रही थी। दस हजार लीटर सिंथेटिक दूध तैयार और कच्चा माल भी बरामद किया गया। इसके सेवन से लोगों का पाचन और नर्वस तंत्र प्रभावित होता है। खाद्य एवं औषधि विभाग ने नमूना लेकर के जांच को भेजे हैं। एसडीएम महावन की मौजूदगी में दूध को मौके पर नष्ट करा दिया गया।

पुलिस ने शनिवार रात गांव जुगसना में केमिकल मिलाकर दूध और उसके उत्पाद बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। जुगसना निवासी मुन्नालाल ने प्रेमचंद्र अग्रवाल मिल्क कलेक्शन सेंटर के नाम से फर्म रजिस्टर्ड करा रखी है। गांव में वह इस फर्म की आड़ में स्किमड मिल्क पाउडर में पानी मिलाकर मशीनों से घोल तैयार करता था। उसमें गर्म रिफाईंड आयल डाल कर उसकी मशीनों से मिक्सिंग करके उसमें कास्टिक सोडा और हाइड्रोजन परआक्साइड मिलाकर दूध बनाया जाता था। स्किमड मिल्क और रिफाईंड आयल मिलाकर मशीन से मिक्सिंग कर मक्खन तैयार कर उसे भगोनों में बर्फ में लगाकर ठंडा किया जाता। सिंथेटिक दूध से ही पनीर बनाया जाता था।

मथुरा के एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर ने बताया, इसकी जानकारी मिलने पर एसपी देहात श्रीशंकर की अगुवाई में सीओ महावन नीलेश मिश्रा और इंस्पेक्टर बलदेव नरेंद्र यादव की टीम गठित कर फैक्ट्री पर रात को छापा मारा गया। करीब छह घंटे तक कार्रवाई चली। एसडीएम महावन कृष्णा नंद तिवारी और खाद्य औषधि एवं प्रशासन विभाग की टीम को मौके पर बुला लिया गया। टीम ने दूध, पनीर और मक्खन के नमूना लिए हैं।

एसएसपी ने बताया, एक टैंकर में दस हजार लीटर सिंथेटिक दूध भरा हुआ था। उस दूध को एसडीएम की मौजूदगी में नष्ट कराया गया। सिंथेटिक दूध और उसके उत्पादों की सप्लाई स्थानीय मार्केट के अलावा हाथरास, सादाबाद, इगलास, फैजाबाद और दिल्ली तक की जा रही थी। एसएसपी ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर उनकी संपत्ति की जांच कराई जाएगी। जो संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई होगी, उसको कुर्क करने की भी कार्रवाई होगी।

**ये किए गिरफ्तार :** जुगसना निवासी गण मुन्ना लाल उर्फ प्रेमचंद्र, अतुल अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, नगला मोहन निवासी गण अजरूद्दीन उर्फ छोटे अकील खान, खोदुआ निवासी जगन्नाथ और भरऊ निवासी सुधीर को गिरफ्तार किया गया है।

**ऐसे बनाते थे दूध :** स्किमड मिल्क पाउडर, रिफाईंड आयल, कास्टिक सोडा और हाइड्रोजन परआक्साइड मिलाकर दूध जैसा द्रव बना लेते थे। इसी कथित दूध से पनीर और मक्खन तैयार करते थे।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/agra-city-synthetic-milk-being-made-in-factory-by-mixing-refined-caustic-soda-and-chemicals-in-mathura-supply-in-many-districts-of-up-and-delhi-21907974.html>